



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052023-246130
CG-DL-E-29052023-246130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348|
No. 348|

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2023/ज्येष्ठ 4, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2023/JYAISHTHA 4, 1945

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2023

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

बीसीआई : डी : 2842 / 2023.—

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ("परिषद्") के 31 मार्च, 2022 तक के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की थी जिसमें तब समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के टिप्पण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन वित्तीय नीतियों का सार और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी सम्मिलित हैं।

हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा अपेक्षित रीति में जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सही और उचित रूप में प्रस्तुत करते हैं।

(क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2022 तक के कार्यकलापों की स्थिति,

(ख) आय और व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष, और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद् के नकदी प्रवाह के बारे में।

राय के आधार

हमने, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार, अपनी लेखा परीक्षा संचालित की थी। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियां को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व वाले भाग में वर्णित किया गया है। हम, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ साथ अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उन नैतिक अपेक्षाओं, जो कि वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से सुसंगत हैं, के अनुसार परिषद् से स्वतंत्र हैं और हमने अपने नैतिक उत्तरदायित्व को

इन अपेक्षाओं और नैतिक संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि वह लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने प्राप्त किए हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं समुचित हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

परिषद् का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो भारत में साधारणतः स्वीकार किए गए लेखा सिद्धान्तों, जिनमें लेखांकन मानक भी हैं, के अनुसार, परिषद् की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन को सही और उचित रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में परिषद् की आस्तियों की सुरक्षा करने के लिए और कपटों के निवारण तथा उनका पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए लागू विधि के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, ऐसे निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूप रेखा, कार्यान्वयन तथा रख-रखाव जो उन लेखांकन अभिलेखों की वास्तविकता तथा संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे; ऐसे वित्तीय विवरणों के तैयार किए जाने और प्रस्तुत करने से सुसंगत हैं जो सही और उचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं और तात्त्विक मिथ्या कथन, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, भी सम्मिलित हैं।

वित्तीय विवरणों के तैयार करने में, प्रबंधन, एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने के इकाई की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए और क्या चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग समुचित है और साथ ही चालू समुत्थान से संबंधित विषयों को यदि लागू हो, प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है।

प्रबंधन परिषद् की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य रहा है कि इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त किया जाए कि क्या वित्तीय विवरण पूर्णतया तात्त्विक मिथ्या कथन से, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, मुक्त है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी सम्मिलित है। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्चस्तर का आश्वासन है किन्तु जो एक ऐसी गारन्टी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा में सदैव किसी तात्त्विक मिथ्या कथन का पता चल जाएगा जब वह विद्यमान होगा। लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के भाग के रूप में, लेखापरीक्षा में हर समय वृत्तिक विवेक का प्रयोग किया जाता है और वृत्तिक सन्देह बनाए रखा जाता है। मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और तात्त्विक समझे जाते हैं यदि व्यक्तिगत रूप से या समग्रतः उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोक्ताओं के आर्थिक निणर्यों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जाती है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

- (क) हमने उन सभी जानकारीयों और स्पष्टीकरणों की ईप्सा की है और उन्हें प्राप्त किया जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
- (ख) हमारी राय में, परिषद् द्वारा, विधि द्वारा अपेक्षित रूप में उचित लेखा बहियां रखी गई हैं जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- (ग) इस रिपोर्ट में चर्चित किए गए तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा, लेखा बहियों के अनुसार हैं।
- (घ) हमारी राय में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- (ङ) परिषद् ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को टिप्पण सं.8 बी (1) के द्वारा आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रकट किया है।

कृते
जी. के. केडिया एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ.आर. नं.0 013016 एन

ह०/-

भागीदार

एम. नं. 544129

यूडीआईन० 2244129 एटीटीजैडडीएस 7559

तुलन पत्र		
(31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)		

	अनुसूची सं०	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
विशिष्टियाँ			
निधियों के स्रोत:			
<u>पूँजी निधि</u>			
मुख्य निधि	1	1,07,30,445	1,07,30,445
आरक्षित और आधिक्य	2	3,69,87,44,562	2,94,17,00,785
अस्तियाँ निधि (सहायता अनुदान)	3	91,78,785	1,02,83,532
अभिलिखित निधि	4	48,91,51,385	44,77,25,023
गैर चालू दायित्व			
लम्बी अवधि के दायित्व		20,00,000	20,00,000
संबद्ध संस्थाओं से प्रतिभूति निक्षेप		32,16,00,000	28,60,00,000
चालू दायित्व			
अग्रिम रूप से प्राप्त निरीक्षण फीस		65,29,05,000	65,29,05,000
चालू दायित्व और प्रावधान	5	25,52,58,180	28,96,82,349
योग		5,43,95,68,357	4,64,10,27,134
निधियों का उपयोजन :			
गैर चालू अस्तियाँ			
स्थिर अस्तियाँ	6	2,54,64,520	2,43,69,791
अभिलिखित निवेश	7	1,46,36,56,385	1,82,03,99,974
अन्य निवेश	8	3,34,81,76,215	2,35,13,15,814
चालू अस्तियाँ			
चालू अस्तियाँ	9	50,10,28,087	40,61,30,898
ऋण और अग्रिम	10	10,12,43,151	3,88,10,567
योग		5,43,95,68,357	4,64,10,27,134
लेखाकरण नीतियों और लेखाओं पर टिप्पण		19	
अनुसूची 1 से 19 लेखा के अभिन्न अंग हैं			

सम संख्यांक तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते भारतीय विधिज्ञ परिषद्

कृते जी. के. केडिया एण्ड क०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ. आर. नं. 013016एन

ह०/-

ह०/-

ह०/-

ह०/-

उपाध्यक्ष

सचिव

वरिष्ठ का० अ०

भागीदार
एम. नं. 544129

आय और व्यय लेखा

विशिष्टियां आय फीस	अनुसूची सं०	(31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)	
		31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
नामांकन और अन्य फीस	11	10,74,04,827	7,61,02,159
परीक्षा फीस	12	21,07,69,626	43,83,16,736
निरीक्षण फीस		60,52,72,011	49,68,45,094
ब्याज	13	20,27,09,321	19,72,14,547
अन्य आय	14	6,88,352	14,11,634
		1,12,68,44,137	1,20,98,90,170
व्यय			
कर्मचारी सुविधा व्यय	15	5,81,03,525	5,03,29,490
स्थापन और अन्य व्यय	16	21,27,83,000	13,29,44,357
परिषद् की गतिविधियों और बैठक पर व्यय	17	5,90,32,256	3,66,08,788
परीक्षा व्यय	18	3,68,95,130	14,26,12,170
अवक्षयण	6	29,86,448	24,62,646
		36,98,00,360	36,49,57,450
वर्ष के दौरान आरक्षितियों और अधिशेषों में अन्तरित अधिशेष / (घाटा)		75,70,43,777	84,49,32,720
लेखाकरण नीतियों और लेखाओं पर टिप्पण अनुसूची 1 से 19 लेखा के अभिन्न अंग हैं	19		

सम संख्यांक तारीख को तुलन पत्र के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते भारतीय विधिज्ञ परिषद् कृते जी. के. केडिया एण्ड क०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ. आर. नं. 013016एन

ह०/-
उपाध्यक्ष

ह०/-
सचिव

ह०/-
वरिष्ठ का० अ०

ह०/-
भागीदार
एम. नं. 544129

अनुसूची-1
पूँजी निधि

मुख्य निधि	(31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)	
	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार अतिशेष	1,07,30,445	1,07,30,445
जोड़े : वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त मुख्य दान	0.00	0.00
योग	1,07,30,445	1,07,30,445

अनुसूची-2 आरक्षितियाँ और अधिशेष		
	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
पिछले तुलन पत्र के अनुसार आरम्भिक अधिशेष	86,30,77,058	72,38,06,592
जोड़िए : वर्ष का अधिशेष आय और व्यय लेखा के अनुसार	75,70,43,777	84,49,32,720
जोड़िए : वर्ष के अन्तर्गत विशेष फंड से हस्तांतरित	18,52,66,597	3,29,50,000
घटाइए : वर्ष के अन्तर्गत प्ररूप- 10 में दर्ज विशेष फंड से हस्तांतरित	(78,70,00,000)	(73,00,00,000)
घटाइए : पूर्व वर्ष का अतिशेष विशेष फंड से हस्तांतरित	0.00	(86,12,253)
योग (क)	1,01,83,87,432	86,30,77,058
विशेष फंड		
आरम्भिक अतिशेष	2,07,86,23,727	1,37,29,61,474
जोड़िए : वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त आरक्षिति और अधिशेष से हस्तांतरित	78,70,00,000	73,00,00,000
जोड़िए : पूर्व वर्ष का अतिशेष	0.00	86,12,253
घटाइए : वर्ष के अन्तर्गत आरक्षिति और अधिशेष से हस्तांतरित उपयोगी रकम	(18,52,66,597)	(3,29,50,000)
योग (ख)	2,68,03,57,130	2,07,86,23,727
योग (क+ख)	3,69,87,44,562	2,94,17,00,785

अनुसूची-3 आस्तियाँ निधि (सहायता अनुदान)		
	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
1 अप्रैल, 2021 को अतिशेष	1,02,83,532	1,15,17,884
घटाईए : वर्ष की अवक्षयण रकम आय और व्यय खाते में हस्तांतरित	(11,04,747)	(12,34,352)
योग	91,78,785	1,02,83,532

अनुसूची-4 अभिनिश्चित निधियाँ		
	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
(क) कल्याण निधि		
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	25,29,04,596	21,86,12,400
जोड़िए : रा.वि.प. से अभिदाय	1,39,05,843	1,62,75,435
सावधिक जमा से ब्याज	1,36,54,712	1,33,83,556
बचत खाते से ब्याज	2,54,091	3,38,391
प्रकीर्ण प्राप्तियाँ	0.00	1,64,61,105
	28,07,19,242	26,50,70,887
घटाईए :		
अधिवक्ताओं को सहायता	(73,72,411)	(1,21,66,000)
बैंक प्रभार	(470)	(290)
योग (क)	27,33,46,361	25,29,04,596
(ख) भविष्य निधि		
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार सदस्यों का अतिशेष	3,83,59,494	3,29,92,209

जोड़िए : कर्मचारियों का अनिवार्य अंशदान	26,15,871	24,57,108
जोड़िए : कर्मचारियों का स्वैच्छिक अंशदान	19,65,000	23,34,000
जोड़िए : आबंटित ब्याज	21,05,914	19,31,570
जोड़िए : भविष्य-निधि ब्याज के अभिदाय में कमी	8,10,517	10,94,094
	4,58,56,796	4,08,08,981
घटाईए : निपटान / निकासी		
स्थायी निकासी	(20,43,608)	(24,49,487)
बैंक प्रभार	(590)	0.00
योग (ख)	4,38,12,598	3,83,59,494
(ग) उपदान निधि (पी बी ओ और ब्याज बाध्यता)		
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार (पी बी ओ और ब्याज बाध्यता)	1,72,35,730	1,56,87,734
जोड़िए : परिषद से प्राप्त अभिदाय	26,39,722	11,38,631
जोड़िए : प्राप्त ब्याज	9,21,082	7,91,272
	2,07,96,534	1,76,17,637
घटाईए : कर्मचारियों को उपदान का भुगतान	(11,30,744)	(3,81,749)
घटाईए : अन्य व्यय	(19)	(158)
योग (ग)	1,96,65,771	1,72,35,730
(घ) पेंशन निधि (पी बी ओ)		
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	13,92,25,202	14,66,22,174
जोड़िए : अभिदाय / प्रावधान	1,54,70,150	27,79,510
जोड़िए : अर्जित ब्याज	73,86,079	0.00
	16,20,81,432	14,49,01,684
घटाईए : अतिरिक्त पी बी ओ का परिवर्तन	(38,06,325)	46,56,074
घटाईए : पूर्व कर्मचारियों/आश्रितों को बैंक, प्रभार और टी डी एस	(59,48,452)	(55,20,408)
(पूर्व वर्ष) का भुगतान		
योग (घ)	15,23,26,655	13,92,25,202
कुल योग (क+ख+ग+घ)	48,91,51,385	44,77,25,023

अनुसूची-5
चालू दायित्व और प्रावधान

	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
(क) चालू दायित्व		
अग्रिम रूप से प्राप्त विशिष्ट पहचान संख्या फीस	19,11,500	18,65,400
वेब पोर्टल रजिस्ट्रीकरण फीस	2,83,05,286	2,52,68,386
डी.सी. निक्षेप फीस	17,24,028	17,25,528
योग (क)	3,19,40,814	2,88,59,314
(ख) प्रतिभूति निक्षेप और अग्रिम राशि		
अग्रिम राशि (ए.आई.आर.प्रा.लि.)	1,00,000	1,00,000
प्रतिभूति निक्षेप (ए.आई.आर.प्रा.लि.)	80,00,000	80,00,000
योग (ख)	81,00,000	81,00,000
(ग) संदेय व्यय		
विविध लेनदार— ए.आई.बी. इ. (एस.टी.बी.सी)	19,93,69,581	19,93,69,581
विविध लेनदार — अन्य	2,97,000	3,03,875
संदेय स्वास्थ्य भत्ता	0.00	30,500
योग (ग)	19,96,66,581	19,97,03,956

(घ) कानूनी देय

संदेय उपदान निधि अंशदान	17,94,144	19,84,209
संदेय पेंशन निधि अंशदान	0.00	1,64,31,518
भविष्य निधि न्यूनतम अभिदाय	8,19,376	10,94,094
कल्याण निधि में देय	24,45,970	23,69,365
पेंशन निधि में देय	3,57,738	5,29,070
भविष्य निधि में देय	0.00	41,656
उपदान निधि में देय	0.00	21,922
संदेय (टी. डी. एस.)	33,500	20,625
योग (घ)	54,50,728	2,24,92,458

(ङ.) अन्य चालू दायित्व

ए. आई.बी.इ.-XVI के लिए प्राप्त अग्रिम फीस	0.00	1,68,86,080
कल्याण निधि से संदेय रकम	0.00	50,37,000
योग (ङ.)	0.00	2,19,23,080

(च) प्रावधान

छुट्टी का नकद भुगतान के लिए प्रावधान	1,01,00,058	86,03,541
योग (च)	1,01,00,058	86,03,541
कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ.+च)	25,52,58,180	28,96,82,349

अनुसूची - 6

स्थिर आस्तियाँ - स्वयं की निधियाँ

(रकम रूप में)

			संकलन				अवकाश				शुद्ध	
क्र. सं.	विवरणियाँ	अवकाश की दर	1 अप्रैल 2021 को	संवर्धन	विक्रय/ लीप/ स मायोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	2021-2022 वर्ष के लिए	समायोजित	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
		(%वार्षिक)	(1)	03-10-2021 से पहले	03-10-2021 के बाद	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) - (7)	(9) = (4) - (8)	(10) (1) - (5)
				(2)	(3)							
1.	भूमि		42,030	—	—	42,030	—	—	—	—	42,030	42,030
2.	भवन	10%	2,07,52,598	—	—	2,07,52,598	1,73,58,782	3,39,382	—	1,76,98,163	30,54,435	33,93,816
3.	नवीनीकरण के लिए भवन किराया	10%	7,68,110	—	—	7,68,110	2,86,465	48,165	—	3,34,629	4,33,481	4,81,645
4.	लिफ्ट	15%	27,40,362	—	—	27,40,362	20,23,433	1,07,539	—	21,30,973	6,09,389	7,16,929
5.	फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	66,75,566	1,69,448	—	68,45,014	35,85,477	3,25,954	—	39,11,430	29,33,584	30,90,089
6.	बिजली की फिटिंग	10%	11,95,596	—	—	11,95,596	8,06,593	38,900	—	8,45,493	3,50,103	3,89,005
7.	कार्यालय उपस्कर	15%	18,70,618	1,86,414	3,91,015	24,48,047	9,83,954	1,90,288	—	11,74,242	12,73,805	8,86,665
8.	एयर कंडीशनर/ कूलर	15%	50,79,758	90,818	—	51,70,576	38,49,154	1,98,213	—	40,47,368	11,23,208	12,30,606
9.	रेफ्रिजरेटर/ गैस	15%	34,480	—	—	34,480	32,000	372	—	32,372	2,108	2,480
10.	कार्यालय सॉफ्टवेयर	15%	16,006	—	—	16,006	11,458	682	—	12,140	3,866	4,548
11.	पुस्तकें और प्रकाशन	100%	1,22,972	92,069	70,285	2,85,326	1,22,972	1,27,212	—	2,50,184	35,143	—
12.	कम्प्यूटर/ लैपटॉप	40%	72,30,400	5,13,228	5,77,730	83,21,358	59,88,712	8,17,512	—	68,06,224	15,15,134	12,41,688
13.	वाटर कूलर	15%	1,10,948	—	—	1,10,948	99,338	1,742	—	1,01,079	9,869	11,610
14.	ट्रांसफार्मर	15%	10,69,846	—	—	10,69,846	10,40,480	4,405	—	10,44,885	24,961	29,366
15.	इन्वोया कार	15%	30,93,739	29,51,115	—	60,44,854	21,10,821	5,90,105	—	27,00,926	33,43,928	9,82,918
16.	अग्निशमन उपस्कर	15%	19,34,501	—	—	19,34,501	17,61,370	25,970	—	17,87,339	1,47,162	1,73,131
17.	एलसीडी/ सी.सीटीवी. / डिजिटल कैमरा	15%	7,88,787	1,36,000	—	9,24,787	2,30,425	1,04,154	—	3,34,579	5,90,208	5,58,362
18.	जनरेटर	15%	10,60,175	—	7,804	10,67,979	6,25,050	65,854	—	6,90,904	3,77,075	4,35,125
	योग (क)		5,45,86,492	41,39,092	10,46,834	5,97,72,418	4,09,16,482	29,86,448	—	4,39,02,931	1,58,69,491	1,36,70,014
	पूर्व वर्ष (क)		5,32,47,582	13,48,910	10,000	5,45,86,492	3,84,53,836	24,62,646	—	4,09,16,482.2	1,36,70,014	1,47,93,746

अनुसूची – 6 क
स्थिर आस्तियां (सहायता अनुदान)
(रकम रुपए में)

				सकल ब्लाक					अवकाशयण			गुद्ध ब्लाक	
क्र. सं.	विशिष्टियां	अवकाशयण की दर (%वार्षिक)	1 अप्रैल 2021 को (1)	संवर्धन		विक्रय/लोप/समायोजन (3)	31 मार्च, 2021 को (4) = (1) + (2) - (3)	1 अप्रैल, 2021 को (5)	2021-2022 वर्ष के लिए (6)	समायोजित (7)	31 मार्च, 2022 को (8) = (5) + (6) - (7)	31 मार्च, 2022 को 9) = (4) - (8)	31 मार्च, 2021 को (10) = (1) - (5)
				03-10-2022 से पहले	03-10-2021 के बाद								
				(2)									
1.	भवन नवीनीकरण	10%	2,26,65,982	—	—	—	2,26,65,982	1,43,76,660	8,28,932	—	1,52,05,592	74,60,390	82,89,322
2.	फर्नीचर और फिटिंग	10%	1,84,625	—	—	—	1,84,625	1,44,464	4,016	—	1,48,480	36,145	40,161
3.	एयर कंडीशनर/कूलर	15%	32,95,129	—	—	—	32,95,129	26,01,102	1,04,104	—	27,05,206	5,89,923	6,94,027
4.	पुस्तकें और प्रकाशन	40%	2,86,904	—	—	—	2,86,904	2,86,904	—	—	2,86,904	—	—
5.	कम्प्यूटर	40%	9,78,674	—	—	—	9,78,674	9,78,446	91	—	9,78,537	137	228
6.	बिजली की फिटिंग	10%	45,53,841	—	—	—	45,53,841	28,77,802	1,67,604	—	30,45,406	15,08,435	16,76,039
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग (ख)	—	3,19,65,155	—	—	—	3,19,65,155	2,12,65,379	11,04,747	—	2,23,70,126	95,95,029	1,06,99,776
	पूर्व वर्ष (ख)	—	3,19,65,155	—	—	—	3,19,65,155	2,00,31,027	12,34,352	—	2,12,65,378.63	1,06,99,776	1,19,34,128
	योग (क+ख)	—	8,65,51,647	—	51,85,926	—	9,17,37,573	6,21,81,861	40,91,196	—	—	2,54,64,520	2,43,69,791
	पूर्व वर्ष (क+ख)	—	8,52,12,737	—	13,48,910	10,000	8,65,51,647	5,84,84,863	36,96,998	—	6,21,81,861	2,43,69,791	2,67,27,874

अनुसूची-7
निवेश

	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
(अ) अभिनिश्चित निधियों के प्रति		
(क) कल्याण निधि निवेश		
केनरा बैंक में सावधिक जमा	6,67,11,233	3,93,32,089
यूको बैंक में सावधिक जमा	13,22,61,930	9,81,11,849
सेन्ट्रल बैंक में सावधिक जमा	76,62,223	73,31,543
भारतीय स्टेट बैंक में सावधिक जमा	2,66,87,688	2,66,87,688
सिंडिकेट बैंक में सावधिक जमा	0.00	2,43,81,082
इलाहाबाद बैंक में सावधिक जमा	0.00	94,74,265
इंडियन बैंक में सावधिक जमा	1,54,60,704	56,48,166
सावधिक जमाओं पर उद्भूत ब्याज	1,18,84,265	1,61,23,254
यूको बैंक बचत खाता सं. 9363 में अतिशेष	1,02,32,348	1,84,08,295
	27,09,00,391	24,54,98,231
जोड़िए : विविध देनदारों से संदेय रकम	24,45,970	74,06,365
योग (क)	27,33,46,361	25,29,04,596

<u>भविष्य निधि निवेश</u>			
(ख)			
यूको बैंक में विशेष जमा	11,90,217	11,90,217	
यूको बैंक में सावधिक जमा	2,68,93,028	2,30,51,267	
सिंडिकेट बैंक में सावधिक जमा	0.00	54,68,362	
केनरा बैंक में सावधिक जमा	91,80,189	32,25,096	
सावधिक जमाओं पर उद्भुत ब्याज	18,07,789	21,03,557	
यूको बैंक बचत खाता 261025 में अतिशेष	34,76,091	12,53,801	
	4,25,47,314	3,62,92,300	
भविष्य निधि ऋण	4,41,109	9,26,645	
विविध देनदारों से संदेय रकम	8,19,375	11,35,749	
नकद अतिशेष	4,800	4,800	
योग (ख)	4,38,12,598	3,83,59,494	
(ग) उपदान निधि निवेश			
यूको बैंक में विशेष जमा	3,18,433	3,18,433	
केनरा बैंक में सावधिक जमा	18,26,050	0.00	
यूको बैंक में सावधिक जमा	1,46,58,983	1,31,91,358	
सिंडिकेट बैंक में सावधिक जमा	0.00	17,23,334	
सावधिक जमाओं पर उद्भुत ब्याज	10,37,465	8,18,983	
यूको बैंक बचत खाता संख्या 440 में अतिशेष	30,696	23,069	
	1,78,71,627	1,60,75,177	
जोड़िए : बीमांकिक रिपोर्ट पर संदेय रकम और संदेय टी डी एस	17,94,144	20,06,131	
योग (ग)	1,96,65,771	1,80,81,308	
(घ) पेंशन निधि निवेश			
सिंडिकेट बैंक में सावधिक जमा	1,42,48,241	6,42,05,806	
सेंट्रल बैंक में सावधिक जमा	81,52,493	78,00,656	
केनरा बैंक में सावधिक जमा	10,10,86,223	3,77,87,703	
यूको बैंक में सावधिक जमा	2,49,26,304	1,30,32,322	
सावधिक जमाओं पर उद्भुत ब्याज	44,17,280	71,21,203	
केनरा बैंक बचत खाता संख्या 19116 में अतिशेष	29,11,476	50,51,203	
	15,57,42,018	13,49,98,894	
जोड़िए: बीमांकिक रिपोर्ट पर संदेय रकम और संदेय टी डी एस	(34,15,363)	1,69,60,588	
योग (घ)	15,23,26,655	15,19,59,482	
कुल योग (अ) (क+ख+ग+घ)		48,91,51,385	46,13,04,880
(आ) अभिनिश्चित दायित्व के प्रति			
(क) विधिक शिक्षा के लिए			
(अग्रिम प्राप्त निरीक्षण फीस)			
इलाहाबाद बैंक	0.00	65,37,651	
सेन्ट्रल बैंक	64,24,635	61,47,366	
केनरा बैंक	6,05,69,937	3,34,44,660	
यूको बैंक	4,17,02,034	3,66,56,788	
सिंडिकेट बैंक	0.00	2,12,13,852	

भारतीय स्टेट बैंक	6,24,34,560	5,90,09,038
इंडियन बैंक	1,30,87,098	57,22,495
	18,42,18,264	16,87,31,850
जोड़िए/ (घटाईए): वि०शि० सावधिक निवेश में अनाबंटित (अनुसूची-8)	46,86,86,736	90,43,63,245
योग (क)	65,29,05,000	1,07,30,95,094
(ख) विधि महाविद्यालयों से (संबद्धता) के लिए प्रतिभूति निक्षेप		
केनरा बैंक	18,17,28,168	13,85,16,713
सेन्ट्रल बैंक	1,59,94,769	1,53,04,481
यूको बैंक	7,72,55,884	4,96,10,786
भारतीय स्टेट बैंक	1,86,88,232	1,86,88,232
सिंडीकेट बैंक	0.00	2,95,19,177
इंडियन बैंक	2,77,25,539	2,36,16,030
	32,13,92,592	27,52,55,419
जोड़िए/ (घटाईए): विधि महाविद्यालयों से अनाबंटित प्रतिभूति निक्षेप (अनुसूची-8)	2,07,408	1,07,44,581
योग (ख)	32,16,00,000	28,60,00,000
योग (आ) = (क+ख)	97,45,05,000	1,35,90,95,094
कुल योग = (अ+आ)	1,46,36,56,385	1,82,03,99,974

	अनुसूची-8 अन्य निवेश	
	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
भारतीय विधिज्ञ परिषद् के लिए बैंकों में सावधिक जमा		
इलाहाबाद बैंक	0.00	25,32,040
सेंट्रल बैंक	1,02,21,400	95,14,971
केनरा बैंक	1,89,28,15,196	92,85,50,462
यूको बैंक	91,75,92,681	90,37,70,329
सिन्डीकेट बैंक	19,04,82,450	76,39,47,717
भारतीय स्टेट बैंक	75,29,67,629	65,28,65,301
इंडियन बैंक	5,29,91,003	52,42,821
	3,81,70,70,359	3,26,64,23,640
जोड़िए/ (घटाईए): विधिक शिक्षा के प्रति सावधिक जमा से अन्तरण (अनुसूची - 7 ख)	(46,86,86,736)	(90,43,63,245)
जोड़िए/ (घटाईए) प्रतिभूति निक्षेप के प्रति सावधिक जमा से अन्तरण (अनुसूची - 7 ख)	(2,07,408)	(1,07,44,581)
योग	3,34,81,76,215	2,35,13,15,814

		अनुसूची-9 चालू अस्तियाँ	
		31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
(क)	निवेशों पर उद्भूत ब्याज	21,30,23,233	19,20,94,229
	योग (क)	21,30,23,233	19,20,94,229
(ख)	लागत पर पुस्तकों का स्टॉक (प्रबन्धक मण्डल द्वारा यथा प्रमाणित)	4,80,434	4,80,434
	योग (ख)	4,80,434	4,80,434
(ग)	नकद और बैंक अतिशेष		
	नकद अतिशेष	1,83,704	3,83,493
	बैंक अतिशेष		
	केनरा बैंक — 31050	4,04,28,765	1,25,98,920
	यूको बैंक — 132	7,93,552	4,54,609
	केनरा बैंक — 31065 (विधिक शिक्षा)	18,66,090	18,41,385
	केनरा बैंक — 31313 (अनुदान)	0.00	14,739
	केनरा बैंक — 31467 (ए०आई०बी०ई०)	54,803	55,098
	केनरा बैंक — 06781	8,64,125	94,65,486
	केनरा बैंक — 06816	1,11,30,285	1,20,91,995
	सिंडीकेट बैंक — 24171010000239 भवन (अनुदान)	2,47,399	2,47,694
	सिंडीकेट बैंक — 24171010000258 (डी०एल०ई०)	1,28,434	1,28,729
	सिंडीकेट बैंक — 24171010000296	28,23,079	28,23,138
	सिंडीकेट बैंक — 24172010005591	30,02,061	29,16,846
	भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता — 32718588024 (ए०आई०बी०ई०)	7,51,488	10,35,594
	भारतीय स्टेट बैंक संग्रहण खाता — 32956278428 (ए०आई०बी०ई०)	9,351	8,36,280
	एच०डी०एफ०सी०, नौएडा बचत खाता सं० 50100255040680 (ए०आई०बी०ई०)	5,04,383	5,03,705
	विभिन्न राज्यों के अनुसूचित बैंकों के बचत खाते में	19,93,60,440	16,24,05,164
	योग (ग)	26,21,47,959	20,78,02,874
(घ)	संदेय रकम		
	कर्मचारियों से	21,739	21,739
	राज्य विधिज्ञ परिषदों से	81,314	81,314
	विविध देनदार— भारतीय विधिज्ञ परिषद न्यास	56,50,307	56,50,307
	विविध देनदार भा०वि०प०न्यास—पर्ल फ्रस्ट	1,58,50,000	0.00
	अग्रिम पेंशन निधि जमा	37,73,101	0.00
	योग (घ)	2,53,76,461	57,53,360
	कुल योग (क)+(ख)+(ग)+(घ)	50,10,28,087	40,61,30,898

अनुसूची-10
ऋण और अग्रिम

	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
कर्मचारियों को ऋण (आवास, विवाह, शिक्षा और अन्य)	90,26,641	1,00,79,885
वसूली योग्य अग्रिम	6,84,45,840	1,17,15,390
पूर्व संदत्त व्यय	6,000	25,000
बिजली और अन्य के लिए प्रतिभूति निक्षेप	12,30,417	12,30,417
अग्रिम किराया – जे० जे० जे० के०-न्यास	3,60,836	3,60,836
वसूली योग्य रकम जे० जे० जे० के०-न्यास	69,086	69,086
वसूली योग्य स्रोत पर कर कटौती –आयकर अनुभाग	1,70,77,931	1,03,03,643
माँग के लिए अग्रिम (वि०व० 2015-16) पूर्व जमा आयकर	50,26,400	50,26,400
योग	10,12,43,151	3,88,10,657

अनुसूची-11
नामांकन और अन्य फीस

	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
(क) अधिवक्ताओं से फीस		
नामांकन फीस	4,73,34,944	2,79,61,884
सदस्यता स्थानांतरण फीस	20,85,352	11,09,575
विधि व्यवसाय फीस का आरंभ	2,52,800	1,57,800
योग (क)	4,96,73,096	2,92,29,259
(ख) अन्य फीस		
अनुशासनात्मक कार्यवाही फीस	2,39,390	1,03,000
पुनरीक्षण परीक्षा फीस	1,98,910	89,900
विधिक शिक्षा प्रारूप आवेदन फीस	4,63,93,431	3,34,30,000
विधि विद्यालयों से विधिक शिक्षा के नियमनकरण की फीस	1,09,00,000	1,32,50,000
योग (ख)	5,77,31,731	4,68,72,900
कुल योग (क)+(ख)	10,74,04,827	7,61,02,159

अनुसूची-12
परीक्षा फीस

	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा फीस—XVI	20,73,38,225	0.00
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा फीस— XV	0.00	43,34,31,683
पुनरीक्षण फीस	1,400	0.00
विदेशी जांच परीक्षा फीस	34,30,001	48,85,053
योग	21,07,69,626	43,83,16,736

अनुसूची-13
ब्याज

	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
सावधिक जमा पर ब्याज	19,50,41,771	19,12,84,883
बचत खाते पर ब्याज	24,06,239	10,75,207
बचत खाते (नामांकन) पर ब्याज	44,49,856	41,53,841
ऋण और अग्रिमों पर ब्याज (कर्मचारी)	6,04,753	7,00,615
आयकर रिफंड पर ब्याज	2,06,701	0.00
योग	20,27,09,321	19,72,14,547

अनुसूची-14
अन्य आय

	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
अन्य प्रकीर्ण आय	6,88,352	14,11,634
योग	6,88,352	14,11,634

अनुसूची-15
कर्मचारी सुविधा व्यय

	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
वेतन व्यय	3,66,03,466	3,80,34,429
पेंशन निधि खाते में परिषद का अभिदाय	1,16,63,826	48,60,178
उपदान निधि खाते में परिषद का अभिदाय	26,39,722	11,38,631
छुट्टी नकद भुगतान	23,03,204	10,90,203
चिकित्सा भत्ते	22,84,266	18,26,278
चिकित्सा बीमा	11,81,333	18,66,693
भविष्य निधि लेखा में परिषद का अभिदाय	8,10,517	10,94,094
सहायक भत्ता	3,67,960	0.00
वाहन भत्ता	1,48,360	4,18,984
छुट्टी यात्रा रियायत	1,00,871	0.00
योग	5,81,03,525	5,03,29,490

अनुसूची-16
स्थापन और अन्य व्यय

	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
विधिक व्यय का प्रचार	19,00,00,000	11,00,04,500
विधिक और वृत्तिक व्यय	50,54,874	26,21,020
प्रकीर्ण व्यय	41,26,209	42,93,217
सामान्य मरम्मत और अनुरक्षण	40,21,547	23,64,504
बिजली और पानी	30,43,269	27,49,706
मुद्रण और लेखन सामग्री	17,49,206	65,23,621
डाक महसूल, तार और टेलीफोन	14,30,735	5,51,918
बैंक प्रभार	10,37,390	13,54,501
वाहन प्रभार	10,09,115	5,39,394

सुरक्षा प्रभार	4,46,040	4,46,040
कार सुधार और अनुरक्षण	4,37,702	2,49,063
संपरीक्षक पारिश्रमिक	3,24,500	3,49,500
बीमा—प्रीमियम	89,580	1,15,276
पत्र—पत्रिकाएं और जनरल	12,834	5,763
विज्ञापन व्यय	0.00	5,71,000
शुल्क और कर	0.00	2,05,334
योग	21,27,83,000	13,29,44,357

अनुसूची-17

परिषद् के कार्यकलापों और बैठकों पर व्यय

	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
(क) यात्रा व बैठकों पर व्यय		
यात्रा—परिषद्	3,50,51,111	2,42,30,338
यात्रा—अनुशासन समिति बैठक	35,04,789	8,70,128
यात्रा—निरीक्षण	61,96,747	42,66,189
यात्रा—विधिक शिक्षा बैठक	22,93,438	17,74,430
बैठक व्यय	88,39,407	30,13,219
योग (क)	5,58,85,491	3,41,54,304
(ख) अन्य व्यय		
रा० वि० प० को अभिदाय/वित्तीय सहायता	0.00	1,22,500
संगोष्ठी/सेमीनार और कार्यशाला व्यय	6,31,590	21,75,273
सम्मान समारोह व्यय	24,23,725	0.00
आई०बी०ए०/आई०आई०सी० का अंशदान	91,450	1,56,711
योग (ख)	31,46,765	24,54,484
कुल योग (क+ख)	5,90,32,256	3,66,08,788

अनुसूची-18

परीक्षा व्यय

	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा —XV	3,68,85,630	6,47,21,700
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा—XIV	0.00	52,48,730
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा —XIII	0.00	7,44,640
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा —XII	0.00	99,800
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा —XI	0.00	10,500

राज्य विधिज्ञ परिषद् के व्यय का अंश	0.00	7,17,66,600
विदेश परीक्षा व्यय	9,500	20,200
	3,68,95,130	14,26,12,170
योग		

अनुसूची-19

लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पण

[31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के अनुसार]

सामान्य

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ("परिषद्") भारत की संसद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन सृजित एक सांविधिक निकाय है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् का उद्देश्य भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित भारत में विधि व्यवसाय का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन और प्रोत्साहन तथा विधिक शिक्षा का विनियमन हैं और इसकी आय अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 7 के अनुसार उपयोग की जाती है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत है।

(क) लेखाकरण नीतियां**1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपराओं के आधार पर तैयार किए गए हैं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार बनाए गए हैं और जब तक अन्यथा कथित न हो, प्रोद्भवमान आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. राजस्व की मान्यता

आय और व्यय को निम्नलिखित को छोड़कर, नकद आधार पर मान्यता दी जाती है :-

- (क) वेब पोर्टल के पंजीकरण के लिए प्राप्त शुल्क को वेब पोर्टल के चालू हो जाने के बाद मान्यता दी जाएगी।
- (ख) विशेष निधि अर्थात् पेंशन निधि, भविष्य निधि, और उपदान निधि से संबंधित वर्तमान लाभ दायित्व और/या ब्याज घटक को प्रोद्भवमान आधार पर संबंधित निधि खाते में जमा कर दिए जाने के बाद मान्यता दी जाती है।
- (ग) निवेश से आय : सावधिक निक्षेप पर ब्याज को बकाया राशि की रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए कालिक अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

3. सहायता अनुदान

- (क) सरकारी अनुदानों को आय और व्यय लेखा में संबंधित लागतों के साथ मिलान करने लिए, जिनकी वे भरपाई करना चाहते हैं, उन अवधियों पर सुव्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है। अप्रयुक्त रकम को, यदि कोई हो, वर्ष के अन्त में दायित्व के रूप में माना जाता है।
- (ख) विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय माना जाता है जिसे लेखा में आस्तियों के उपयोगी होने तक व्यवस्थित और युक्तिमूलक आधार पर मान्यता दी जाती है।

4. निधि

"निधि" शब्द का प्रयोग इस आशय को प्रकट करने के लिए किया गया है कि अतिशेष अंततः निवेश किए जाने के लिए रखे गए हैं :-

(i) मुख्य निधि

मुख्य निधि विधि महाविद्यालयों और दूसरों से प्राप्त दान को तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् के मार्च, 1999 तक वार्षिक बचत/घाटे को व्यपदिष्ट करती है।

(ii) कल्याण निधि

कल्याण निधि से भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के अनुसार अधिवक्ताओं से प्राप्त अभिदाय को व्यपदिष्ट करती है और इसका उपयोग अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता के लिए किया जाता है।

5. स्थिर आस्तियां

स्थिर आस्तियों को संचयित अवक्षयण से घटाकर ऐतिहासिक लागत पर स्थिर आस्तियों का उल्लेख किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए लागत में अर्जन के अंतर्गत ऐसी आस्तियों के अर्जन/संनिर्माण से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क, कर और आनुषंगिक व्यय तथा प्रत्यक्ष व्यय भी सम्मिलित हैं।

6. अवक्षयण

स्थिर आस्तियों पर अवक्षयण खुदरा मूल्य पद्धति के आधार पर आय-कर नियम के अधीन निहित दरों पर दिया जाता है।

7. निवेश

निवेशों को “दीर्घकालिक निवेश” के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें लागत आधार पर अग्रणीत किया जाता है क्योंकि सभी निवेश अनुसूचित बैंकों में सावधिक निक्षेपों के रूप में रखे गए हैं।

8. सेवा निवृत्ति फायदे

(i) पेंशन निधि

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों के पेंशन-सह-कुटुंब पेंशन नियम 1 अप्रैल, 2002 से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों पर लागू कर दिए गए हैं। तदनुसार, “भारतीय विधिज्ञ परिषद् अभिदायी भविष्य निधि” को बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पर पेंशन निधि आरंभ की गई है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अभिदायी भविष्य निधि में इसके पूर्व किए गए अभिदाय और उपगत ब्याज को पेंशन निधि में अंतरित कर दिया गया है।

परिषद् के विनिश्चय के अनुसार पेंशन निधि अभिदाय 10,000/- रुपये प्रतिमास की अतिरिक्त रकम सहित मूल वेतन का 12% की दर पर मासिक आधार पर किया जाता है। तथापि पी0 वी0 सी0 पद्धति के अधीन बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार प्रोद्भूत दायित्वों का अवधारण कर्मचारी प्रसुविधा संबंधी अधिसूचित लेखा मानक (पुनरीक्षित) -15 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है तथा अन्तरिम उपबंध/उत्क्रमण वर्ष के अन्त में किया जाता है।

(ii) उपदान निधि

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने “उपदान निधि” नामक एक विशेष निधि रखी है। इस निधि में अंशदान आई०सी० ए०आई० के एएस-15 के अनुसार बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। निधि परिषद् द्वारा नियुक्त न्यासियों द्वारा प्रशासित की जाती है।

(iii) साधारण भविष्य निधि

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों का साधारण भविष्य निधि खाता वेतन को लागू दर पर कर्मचारियों के अंश की रकम के साथ उस पर स्वैच्छिक अभिदाय और उद्भूत ब्याज सहित जमा राशी को व्यपदिष्ट करता है।

(iv) छुट्टी का नगद भुगतान

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों/केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार 300 दिनों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए न ली गई छुट्टी के लिए उपबंध मूल वेतन और मंहगाई भत्तों पर विचार करके वर्ष में 30 दिन के लिए प्रोद्भवमान आधार पर बनाए गए हैं।

इस निधि का प्रावधान आई०सी० ए०आई० के एएस-15 के अनुसार बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ख लेखाओं पर टिप्पण

ऐसे समाश्रित दायित्वों को जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है के ब्यौरे :-

1. समाश्रित दायित्व

क्र.स.	विशिष्टियां	वित्तीय वर्ष	धारा कोड	वह तारीख जिसको मांग की गई	पूर्व वर्ष को मांग की रकम रुपये	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को मांग की रकम रुपये
(क)	आय कर प्राधिकारी	2015-16	143(3)	30-12-2018	4,16,41,108.00	4,57,52,460.00

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग द्वारा सीएएसएस के अधीन संवीक्षा के लिए मामले का चयन किया गया था और इसका निर्धारण आदेश 30-12-2018 को पारित किया गया था। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) के अधीन आदेश सं. आईटीबीए/एससीटी/एस/143(3)/2018-19/1014662612 (1) के अनुसार, ₹ 4,57,52,460/- की मांग की गई थी। परिषद ने आयकर आयुक्त (अपील) को आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की थी और उसके विरुद्ध रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में भी फाइल की गई है।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग-क के नियम 3 (1) के अधीन पत्र सं. जेपी-1 (6)/63/3332, तारीख 25 दिसम्बर, 1965 (1965-1966 का आदेश सं. 1) के अनुसार, भविष्य निधि को मान्यता प्राप्त हुई है।
 3. विधि महाविद्यालयों/संस्था से अग्रिम रूप से प्राप्त निरीक्षण फीस ₹ 65,29,05,000/- और सहबद्ध संस्थाओं से ₹ 32,16,00,000/- के प्रतिपूर्ति निक्षेप को तुलन पत्र की अनुसूची सं. 7ख में कथन किए गए अनुसार उक्त राशि के बैंक के पास सावधि जमा के रूप में निरूपित किया गया है।
 4. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
- अनुसूची सं. 1 से 19 लेखा के अभिन्न अंग हैं

सम संख्यांक तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते भारतीय विधिज्ञ परिषद्

कृते जी. के. केडिया एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

एफ.रजि. नं. 013016एन

ह०/-

ह०/-

ह०/-

ह०/-

उपाध्यक्ष

सचिव

वरिष्ठ का० अ०

भागीदार

एम. नं. 544129

श्रीमंतो सेन
(सचिव)
भारतीय विधिज्ञ परिषद्

नकद प्रवाह विवरण
(31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2022 को रुपए	31 मार्च, 2021 को रुपए
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
आय और व्यय लेखा के अनुसार अधिशेष	75,70,43,777	84,49,32,720
गैर नकद मदों के लिए समायोजन के पश्चात् प्रचालन से नकद प्रवाह:		
अवक्षयण (आस्ति निधि पर भारित शुद्ध रकम)	29,86,448	24,62,645
सावधिक जमाओं पर ब्याज	(19,50,41,771)	(16,81,02,757)
बचत बैंक (नामांकन) और अन्य पर ब्याज	(68,56,095)	(52,68,342)
कर्मचारियों के ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	(6,04,753)	(7,00,615)
काम काज पूंजी और निधि परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष	55,75,27,605	67,33,23,652
वर्तमान आस्तियों तथा वर्तमान दायित्वों में वृद्धि/ (कमी) तथा अभिनिश्चित निधि अतिशेष :		
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(6,24,32,494)	16,22,593

प्राप्त आय में (वृद्धि)/ कमी	(5,98,755)	(1,42,98,140)
उदभूत ब्याज में (वृद्धि)/ कमी	(1,96,03,967)	(2,10,37,765)
वर्तमान आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(9,11,24,088)	0.00
वर्तमान दायित्वों तथा उपबंधों में (वृद्धि)/कमी	(3,81,97,269)	3,77,23,838
(-) प्रचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकद/ उनमें प्रयुक्त शुद्ध नकद	34,55,71,032	67,73,34,178
(ख) विनिधानकारी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :		
सावधिक जमाओं पर ब्याज आय	19,50,41,771	16,81,02,757
बचत बैंक (नामांकन) और अन्य पर ब्याज	68,56,095	52,68,342
कर्मचारियों के ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	6,04,753	7,00,615
मूर्त आस्तियों का क्रय	0.00	10,000
मूर्त आस्तियों का विक्रय	51,85,926	(13,48,910)
विनिधान :		
(i) अभिनिश्चित निधि के प्रति विनिधान		
कल्याणकारी निधि विनिधानों में वृद्धि	(3,78,71,096)	0.00
भविष्य निधि विनिधानों में वृद्धि	(43,28,492)	(3,96,281)
उपदान निधि विनिधानों में वृद्धि	(15,70,341)	(31,24,960)
पेंशन निधि विनिधानों में वृद्धि	(2,55,86,774)	(60,00,000)
शिक्षा	(1,54,86,414)	0.00
विधि महाविधालय (सहबद्धता) से प्रतिभूति जमा के लिए विनिधानों में वृद्धि	(4,61,37,173)	0.00
निवेश के लिए नकदीकरण		
अ0 भा0 वि0 प0 और भा0 वि0 प0	(15,37,78,938)	(31,83,18,598)
(ii) अन्य निवेश	(28,35,11,967)	(49,89,54,610)
(-) विनिधानकारी क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी/उनमें प्रयुक्त शुद्ध नकदी	(36,05,28,651)	(65,40,61,644)
(ग) वित्तपोषणकारी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कल्याणकारी निधि (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	3,78,17,096	0.00
भविष्य निधि (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	43,28,492	3,96,281
उपदान निधि (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	15,70,341	31,24,960
पेंशन निधि (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	2,55,86,774	60,00,000
वित्तपोषणकारी क्रियाकलापों से उत्पन्न शुद्ध नकदी/उनमें प्रयुक्त शुद्ध नकदी	6,93,02,703	95,21,240

नकदी में शुद्ध वृद्धि/कमी और नकद तुल्य राशि (क+ख+ग)	5,43,45,085	3,27,93,774
वर्ष के आरम्भ में नकद तथा तुल्य राशि (आरम्भिक अतिशेष)	20,78,02,874	17,50,09,100
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकद तुल्य राशि (अंतशेष)	26,21,47,959	20,78,02,874
नकदी के संघटक तथा नकदी तुल्य राशि:		
हाथ नकदी	1,83,704	3,83,493
चालू खाते में अनुसूचित बैंकों और बचत खाते में अतिशेष	26,19,64,255	20,74,19,382
योग	26,21,47,959	20,78,02,874

उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण आई०सी०ए०आई० द्वारा जारी एएस-3 में यथा उपवर्णित अप्रत्यक्ष पद्धति के अधीन तैयार किया गया है।

अनुसूची सं. 1 से 19 लेखा के अभिन्न अंग हैं

कृते भारतीय विधिज्ञ परिषद्

सम संख्यांक तारीख को तुलन पत्र के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार कृते जी. के. केडिया एण्ड क० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एफ. आर. नं. 013016एन

ह०/-
उपाध्यक्ष

ह०/-
सचिव

ह०/-
वरिष्ठ का० अ०

ह०/-
भागीदार
एम. नं. 544129

श्रीमंतो सेन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./125/2023-24]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2023

(INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT)

To the Members of The Bar Council of India Report on The Audit of the Financial Statements

BCI : D: 2842/2023.—

OPINION

We have audited the accompanying Financial Statements of the *BAR COUNCIL OF INDIA* ("the Council"), as at March 31, 2022, which comprise the Balance Sheet and Income & Expenditure Account for the year then ended, and Notes to the Financial Statements, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information for the year ended 31st March, 2022.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Advocates Act, 1961 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

- (a) In the case of the Balance Sheet, of the State of Affairs as at March 31, 2022 and
- (b) In the case of the Income & Expenditure Account, Surplus for the year ended on that date.
- (c) In the case of Cash Flow Statement, of the cash flow of the Council for the year ended on that date.

BASIS FOR OPINION

We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing (SAs) specified by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Council in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules there under, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITIES FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Management of the Council is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the Council in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable law for safeguarding of the assets of the Council and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern and whether the use of the going concern basis of accounting is appropriate as well as disclosing, if applicable, matters relating to going concern.

The Management is also responsible for overseeing the Council's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, professional judgment is exercised and professional skepticism is maintained throughout the audit. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

We report that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law has been kept by the Council so far as it appears from our examination of those books.
- (c) The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.
- (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- (e) The Council has disclosed the impact of pending litigations on the financial position in its financial statements for the year ended March 31, 2022 vide Note No.8 B(1) as Contingent Liabilities.

For **G. K. Kedia & Co.**

Chartered Accountants

F.R.No.: 013016N

Partner

M. No. 544129

UDIN: 22544129ATTZDS7559

BALANCE SHEET*(As at 31st March, 2022)*

PARTICULARS	Schedule No.	As At	As At
		March 31, 2022	March 31, 2021
		R	R
SOURCES OF FUNDS:			
Capital Fund			
- Corpus Fund	1	1,07,30,445	1,07,30,445
- Reserves & Surplus	2	3,69,87,44,562	2,94,17,00,785
- Assets Fund (Grants-in-Aid)	3	91,78,785	1,02,83,532
- Earmarked Funds	4	48,91,51,385	44,77,25,023
Non Current Liabilities			
- Long Term Liabilities		20,00,000	20,00,000
-Security Deposits From Affiliated Institutions		32,16,00,000	28,60,00,000
Current Liabilities			
-Inspection Fees Received In Advance		65,29,05,000	65,29,05,000
-Current Liabilities & Provisions	5	25,52,58,180	28,96,82,349
	TOTAL	5,43,95,68,357	4,64,10,27,134
APPLICATION OF FUNDS:			
Non Current Assets			
Fixed Assets	6	2,54,64,520	2,43,69,791
Earmarked Investments	7	1,46,36,56,385	1,82,03,99,974
Other Investments	8	3,34,81,76,215	2,35,13,15,814
Current Assets			
Current Assets	9	50,10,28,087	40,61,30,898
Loans & Advances	10	10,12,43,151	3,88,10,567
	TOTAL	5,43,95,68,357	4,64,10,27,134
Accounting Policies and Notes to Accounts	19		

SCHEDULES 1 TO 19 FORM AN INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS

For and on behalf of the Bar Council of India

As per our report of even date annexed

For **G. K. Kedia & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 013016NSd-
Vice ChairmanSd-
SecretarySd-
Senior OS
Accounts DepartmentSd-
Partner
M. No. 544129

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT*(For The Year Ended March 31, 2022)*

PARTICULARS	Schedule No.	As At	As At
		March 31, 2022	March 31, 2021
		R	R
INCOME			
Fees			
Enrollment and Other Fees	11	10,74,04,827	7,61,02,159
Examination Fees	12	21,07,69,626	43,83,16,736
Inspection Fees		60,52,72,011	49,68,45,094
Interest	13	20,27,09,321	19,72,14,547
Other Income	14	6,88,352	14,11,634
		1,12,68,44,137	1,20,98,90,170
EXPENDITURE:			
Employee Benefit Expenses	15	5,81,03,525	5,03,29,490
Establishment and Other Expenses	16	21,27,83,000	13,29,44,357
Expenses on Council's Activities & Meetings	17	5,90,32,256	3,66,08,788
Examination Expenses	18	3,68,95,130	14,26,12,170
Depreciation	6	29,86,448	24,62,646
		36,98,00,360	36,49,57,450
Surplus/ (Deficit) During the Year			
Transferred to Reserves & Surplus		75,70,43,777	84,49,32,720
Accounting Policies and Notes to Accounts	19		

SCHEDULES 1 TO 19 FORM AN INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS

For and on behalf of the Bar Council of India

Sd-
Vice ChairmanSd-
SecretarySd-
Senior OS
Accounts Department

As per our report of even date annexed with Balance Sheet

For **G. K. Kedia & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 013016NSd-
Partner
M. No. 544129

SCHEDULE—1
CAPITAL FUND

	As At March 31, 2022 R	As At March 31, 2021 R
Corpus Fund		
Balance As Per Last Balance Sheet	1,07,30,445	1,07,30,445
Add: Corpus Donation Received during the year	0.00	0.00
Total	1,07,30,445	1,07,30,445

SCHEDULE—2
RESERVE & SURPLUS

	As At March 31, 2022 R	As At March 31, 2021 R
Opening Surplus As Per Last Balance Sheet	86,30,77,058	72,38,06,592
Add: Surplus For The Year As Per Income & Expenditure A/c	75,70,43,777	84,49,32,720
Add : Transfer from Special Fund during the year	18,52,66,597	3,29,50,000
Less : Transfer to Special Fund, Form 10 filed during the year	(78,70,00,000)	(73,00,00,000)
Less : Transfer to Special Fund (Balance of Last Year)	0.00	(86,12,253)
Total (A)	1,01,83,87,432	86,30,77,058
Special Fund		
Opening Balance	2,07,86,23,727	1,37,29,61,474
Add: Received During the Year, transferred from Reserve & Surplus	78,70,00,000	73,00,00,000
Add : Balance of Last Year	0.00	86,12,253
Less: Amount utilised during the year, transferred to Reserve & Surplus	(18,52,66,597)	(3,29,50,000)
Total (B)	2,68,03,57,130	2,07,86,23,727
Total (A+B)	3,69,87,44,562	2,94,17,00,785

SCHEDULE—3
ASSETS FUND (GRANTS-IN-AID)

	As At March 31, 2022 R	As At March 31, 2021 R
Balance as on 1-4-2021	1,02,83,532	1,15,17,884
Less: Amount of Depreciation for the Year Transfer to Income & Expenditure A/c	(11,04,747)	(12,34,352)
Total	91,78,785	1,02,83,532

SCHEDULE—4
EARMARKED FUNDS

	As At March 31, 2022 R	As At March 31, 2021 R
(A) Welfare Fund		
As Per Last Balance Sheet	25,29,04,596	21,86,12,400
Add:		
Contribution From State Bar Council	1,39,05,843	1,62,75,435
Interest on FDR	1,36,54,712	1,33,83,556
Interest on Savings Bank A/c	2,54,091	3,38,391
Miscellaneous Receipts	0.00	1,64,61,105
	28,07,19,242	26,50,70,887
Less:		
Assistance to Advocates	(73,72,411)	(1,21,66,000)
Bank Charges	(470)	(290)
Total (A)	27,33,46,361	25,29,04,596
(B) Provident Fund		
Member's Balance		
As Per Last Balance Sheet	3,83,59,494	3,29,92,209
Add:		
Employees Compulsory Subscription	26,15,871	24,57,108
Employees Voluntary Subscription	19,65,000	23,34,000
Interest Allocated	21,05,914	19,31,570
Shortfall in PF Interest Contribution	8,10,517	10,94,094
	4,58,56,796	4,08,08,981
Less: Settlement/Withdrawl		
Permanent Withdrawl	(20,43,608)	(24,49,487)
Bank Charges	(590)	0.00
Total (B)	4,38,12,598	3,83,59,494
(C) Gratuity Fund (PBO & Interest Obligation)		
As Per Last Balance Sheet (PBO & Interest Obligation)	1,72,35,730	1,56,87,734
Add: Contribution Received from the Council	26,39,722	11,38,631
Add: Interest Received	9,21,082	7,91,272
	2,07,96,534	1,76,17,637
Less: Gratuity Paid To Staff	(11,30,744)	(3,81,749)
Less: Other Expenses	(19)	(158)
Total (C)	1,96,65,771	1,72,35,730
(D) Pension Fund (PBO)		
As Per Last Balance Sheet	13,92,25,202	14,66,22,174
Add: Contribution/Provision	1,54,70,150	27,79,510
Add: Interest Earned	73,86,079	0.00
	16,20,81,432	14,94,01,684
Less: Reversal of Excess PBO	(38,06,325)	(46,56,074)
Less: Payments To Ex-Staff / Dependents, Bank Charges & TDS (Last Year)	(59,48,452)	(55,20,408)
Total (D)	15,23,26,655	13,92,25,202
Grand Total (A+B+C+D)	48,91,51,385	44,77,25,023

SCHEDULE—5
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

	As At March 31, 2022	As At March 31, 2021
	R	R
(A) Current Liabilities		
Advance Fee for Uniform Identification Numbers	19,11,500	18,65,400
Web Portal Registration Fee	2,83,05,286	2,52,68,386
Disciplinary Committee Deposit Fees	17,24,028	17,25,528
Total (A)	3,19,40,814	2,88,59,314
(B) Security Deposit & Earnest Money		
Earnest Money (AIR Pvt. Ltd.)	1,00,000	1,00,000
Security Deposit (AIR Pvt. Ltd.)	80,00,000	80,00,000
Total (B)	81,00,000	81,00,000
(C) Expenses Payable		
Sundry Creditors -AIBE (STBC)	19,93,69,581	19,93,69,581
Sundry Creditors -Others	2,97,000	3,03,875
Medical Allowance Payable	0.00	30,500
Total (C)	19,96,66,581	19,97,03,956
(D) Statutory Dues		
Gratuity Fund Contribution Payable	17,94,144	19,84,209
Pension Fund Contribution Payable	0.00	1,64,31,518
Provident Fund Shortfall Contribution	8,19,376	10,94,094
Due To Welfare Fund	24,45,970	23,69,365
Due To Pension Fund	3,57,738	5,29,070
Due To Provident Fund	0.00	41,656
Due To Gratuity Fund	0.00	21,922
TDS Payable	33,500	20,625
Total (D)	54,50,728	2,24,92,458
(E) Other Current Liabilities		
Advance fees received for AIBE-XVI	0.00	1,68,86,080
Contribution Payable to Welfare Fund	0.00	50,37,000
Total (E)	0.00	2,19,23,080
(F) Provisions		
Provision For Leave Encashment	1,01,00,058	86,03,541
Total (F)	1,01,00,058	86,03,541
Grand Total (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)	25,52,58,180	28,96,82,349

SCHEDULE — 6
FIXED ASSETS - OWN FUNDS
(Amount in R)

			GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK	
S.No.	Particulars	Rate of	As at	Additions		Sale/Deletions/ adjustment (3)	As at	As at	For the year	Adjusted	As at	As at	As at
		Depreciation (% P.A.)	1.4.2021 (1)	Before 3-10-2021	After 3-10-2021		31-3-2022 (4) = (1) + (2)- (3)	1-4-2021 (5)	2021-22	(7)	31-3-2022 (8)= (5) + (6)- (7)	31-3-2022 (9) = (4) - (8)	31-3-2021 (10)
			(2)	(1)-(5)									
1	Land		42,030	0.00	0.00	0.00	42,030	0.00	0.00	0.00	0.00	42,030	42,030
2	Building	10%	2,07,52,598	0.00	0.00	0.00	2,07,52,598	1,73,58,782	3,39,382	0.00	1,76,98,163	30,54,435	33,93,816
3	Rental - Building Renovation	10%	7,68,110	0.00	0.00	0.00	7,68,110	2,86,465	48,165	0.00	3,34,629	4,33,481	4,81,645
4	Lift	15%	27,40,362	0.00	0.00	0.00	27,40,362	20,23,433	1,07,539	0.00	21,30,973	6,09,389	7,16,929
5	Furniture & Fixtures	10%	66,75,566	1,69,448	0.00	0.00	68,45,014	35,85,477	3,25,954	0.00	39,11,430	29,33,584	30,90,089
6	Electrical Fittings	10%	11,95,596	0.00	0.00	0.00	11,95,596	8,06,593	38,900	0.00	8,45,493	3,50,103	3,89,005
7	Office Equipments	15%	18,70,618	1,86,414	3,91,015	0.00	24,48,047	9,83,954	1,90,288	0.00	11,74,242	12,73,805	8,86,665
8	Air Conditioner / Cooler	15%	50,79,758	90,818	0.00	0.00	51,70,576	38,49,154	1,98,213	0.00	40,47,368	11,23,208	12,30,606
9	Refrigerator / Gas	15%	34,480	0.00	0.00	0.00	34,480	32,000	372	0.00	32,372	2,108	2,480
10	Office Cycles	15%	16,006	0.00	0.00	0.00	16,006	11,458	682	0.00	12,140	3,866	4,548
11	Books & Publications	100%	1,22,972	92,069	70,285	0.00	2,85,326	1,22,972	1,27,212	0.00	2,50,184	35,143	0.00
12	Computers / Laptops	40%	72,30,400	5,13,228	5,77,730	0.00	83,21,358	59,88,712	8,17,512	0.00	68,06,224	15,15,134	12,41,688
13	Water Cooler	15%	1,10,948	0.00	0.00	0.00	1,10,948	99,338	1,742	0.00	1,01,079	9,869	11,610
14	Transformer	15%	10,69,846	0.00	0.00	0.00	10,69,846	10,40,480	4,405	0.00	10,44,885	24,961	29,366
15	Innova Car	15%	30,93,739	29,51,115	0.00	0.00	60,44,854	21,10,821	5,90,105	0.00	27,00,926	33,43,928	9,82,918
16	Fire Lighting Equipment	15%	19,34,501	0.00	0.00	0.00	19,34,501	17,61,370	25,970	0.00	17,87,339	1,47,162	1,73,131
17	CCTV / LCD / Digital Camera	15%	7,88,787	1,36,000	0.00	0.00	9,24,787	2,30,425	1,04,154	0.00	3,34,579	5,90,208	5,58,362
18	Genset	15%	10,60,175	0.00	7,804	0.00	10,67,979	6,25,050	65,854	0.00	6,90,904	3,77,075	4,35,125
	Total (A)		5,45,86,492	41,39,092	10,46,834	0.00	5,97,72,418	4,09,16,482	29,86,448	0.00	4,39,02,931	1,58,69,491	1,36,70,014
	Previous Year (A)		5,32,47,582		13,48,910	10,000	5,45,86,492	3,84,53,836	24,62,646	0.00	4,09,16,482.27	1,36,70,014	1,47,93,746

SCHEDULE — 6A
FIXED ASSETS - (GRANT-IN-AID)
(Amount in R)

GROSS BLOCK														DEPRECIATION				NET BLOCK		
S.No.	Particulars	Rate of Depreciation (% P.A.)	As at 1.4.2021 (1)	Additions		Sale/Deletions/ adjustment (3)	As at 31-3-2022 (4) = (1) + (2)- (3)	As at 1-4-2021 (5)	For the year 2021-22 (6)	Adjusted (7)	As at 31-3-2022 (8)= (5) + (6)- (7)	As at 31-3-2022 (9) = (4) - (8)	As at 31-3-2021 (10)							
				Before 3-10- 2021	After 3-10-2021															
				(2)										(1)-(5)						
1	Building Renovation	10%	2,26,65,982	0.00	0.00	0.00	2,26,65,982	1,43,76,660	8,28,932	0.00	1,52,05,592	74,60,390	82,89,322							
2	Furniture & Fittings	10%	1,84,625	0.00	0.00	0.00	1,84,625	1,44,464	4,016	0.00	1,48,480	36,145	40,161							
3	Air Conditioner/Cooler	15%	32,95,129	0.00	0.00	0.00	32,95,129	26,01,102	1,04,104	0.00	27,05,206	5,89,923	6,94,027							
4	Books & Publications	40%	2,86,904	0.00	0.00	0.00	2,86,904	2,86,904	0.00	0.00	2,86,904	0.00	0.00							
5	Computers	40%	9,78,674	0.00	0.00	0.00	9,78,674	9,78,446	91	0.00	9,78,537	137	228							
6	Electrical Fitting	10%	45,53,841	0.00	0.00	0.00	45,53,841	28,77,802	1,67,604	0.00	30,45,406	15,08,435	16,76,039							
	Total (B)		3,19,65,155	0.00	0.00	0.00	3,19,65,155	2,12,65,379	11,04,747	0.00	2,23,70,126	95,95,029	1,06,99,776							
	Previous Year (B)		3,19,65,155	0.00	0.00	0.00	3,19,65,155	2,00,31,027	12,34,352	0.00	2,12,65,378.63	1,06,99,776	1,19,34,128							
	Total (A+B)		8,65,51,647	0.00	51,85,926	0.00	9,17,37,573	6,21,81,861	40,91,196	0.00	0.00	2,54,64,520	2,43,69,791							
	Previous Year (A+B)		8,52,12,737		13,48,910	10,000	8,65,51,647	5,84,84,863	36,96,998	0.00	6,21,81,861	2,43,69,791	2,67,27,874							

SCHEDULE—7
INVESTMENTS

	As At March 31, 2022	As At March 31, 2021
	R	R
(A) Against Earmarked Fund		
Welfare Fund Investments		
Fixed Deposit With Canara Bank	6,67,11,233	3,93,32,089
Fixed Deposit With UCO Bank	13,22,61,930	9,81,11,849
Fixed Deposit With Central Bank	76,62,223	73,31,543
Fixed Deposit With State Bank of India	2,66,87,688	2,66,87,688
Fixed Deposit With Syndicate Bank	0.00	2,43,81,082
Fixed Deposit With Allahabad Bank	0.00	94,74,265
Fixed Deposit With Indian Bank	1,54,60,704	56,48,166
Accrued Interest on FDRs	1,18,84,265	1,61,23,254
Balance In UCO Bank-Savings A/C.9363	1,02,32,348	1,84,08,295
	27,09,00,391	24,54,98,231
Add: Amount receivable from Sundry Debtors	24,45,970	74,06,365
(I)	27,33,46,361	25,29,04,596
Provident Fund Investment		
Special Deposit With UCO Bank	11,90,217	11,90,217
Fixed Deposit With UCO Bank	2,68,93,028	2,30,51,267
Fixed Deposit With Syndicate Bank	0.00	54,68,362
Fixed Deposit With Canara Bank	91,80,189	32,25,096
Accrued Interest on FDRs	18,07,789	21,03,557
Balance In UCO Bank-Savings A/C 261025	34,76,091	12,53,801
	4,25,47,314	3,62,92,300
Provident Fund Loan	4,41,109	9,26,645
Amount Receivable from Sundry Debtors	8,19,375	11,35,749

Cash Balance	4,800	4,800
	(II) 4,38,12,598	3,83,59,494
Gratuity Fund Investment		
Special Deposit With UCO Bank	3,18,433	3,18,433
Fixed Deposit With Canara Bank	18,26,050	0.00
Fixed Deposit With UCO Bank	1,46,58,983	1,31,91,358
Fixed Deposit With Syndicate Bank	0.00	17,23,334
Accrued Interest on FDRs	10,37,465	8,18,983
Balance In UCO Bank-Savings A/C 440	30,696	23,069
	1,78,71,627	1,60,75,177
Add: Amount Receivable as Acturial Report and TDS Receivable	17,94,144	20,06,131
	(III) 1,96,65,771	1,80,81,308
Pension Fund Investment		
Fixed Deposit With Syndicate Bank	1,42,48,241	6,42,05,806
Fixed Deposit With Central Bank	81,52,493	78,00,656
Fixed Deposit With Canara Bank	10,10,86,223	3,77,87,703
Fixed Deposit With UCO Bank	2,49,26,304	1,30,32,322
Accrued Interest on FDRs	44,17,280	71,21,203
Balance In Canara Bank- Savings AC. 19116	29,11,476	50,51,203
	15,57,42,018	13,49,98,894
Add: Amount Receivable as Acturial Report and TDS Receivable	(34,15,363)	1,69,60,588
	(IV) 15,23,26,655	15,19,59,482
Total (A) = [(I)+(II)+(III)+(IV)]	48,91,51,385	46,13,04,880
	As At	As At
	March 31, 2022	March 31, 2021
(B) Against Earmarked Liabilities	R	R
For Legal Education		
(Inspection Fees Received In Advance)		
Allahabad Bank	0.00	65,37,651
Central Bank	64,24,635	61,47,366
Canara Bank	6,05,69,937	3,34,44,660
UCO Bank	4,17,02,034	3,66,56,788
Syndicate Bank	0.00	2,12,13,852
State Bank of India	6,24,34,560	5,90,09,038
Indian Bank	1,30,87,098	57,22,495
	18,42,18,264	16,87,31,850
Add/(Less): Unallocated to Legal Education FDR Investment (Sch-8)	46,86,86,736	90,43,63,245
	(I) 65,29,05,000	1,07,30,95,094
For Security Deposit from Law Colleges (Affiliation)		
Canara Bank	18,17,28,168	13,85,16,713
Central Bank	1,59,94,769	1,53,04,481
UCO Bank	7,72,55,884	4,96,10,786
State Bank of India	1,86,88,232	1,86,88,232
Syndicate Bank	0.00	2,95,19,177
Indian Bank	2,77,25,539	2,36,16,030
	32,13,92,592	27,52,55,419
Add/(Less): Unallocated To Security Deposit from Law Colleges (Sch-8)	2,07,408	1,07,44,581
	(II) 32,16,00,000	28,60,00,000
Total(B) = [(I)+(II)]	97,45,05,000	1,35,90,95,094
Grand Total (A)+(B)	1,46,36,56,385	1,82,03,99,974

SCHEDULE—8
OTHER INVESTMENTS

	As At March 31, 2022 R	As At March 31, 2021 R
Fixed Deposits with Banks for the Bar Council of India		
Allahabad Bank	0.00	25,32,040
Central Bank	1,02,21,400	95,14,971
Canara Bank	1,89,28,15,196	92,85,50,462
UCO Bank	91,75,92,681	90,37,70,329
Syndicate Bank	19,04,82,450	76,39,47,717
State Bank of India	75,29,67,629	65,28,65,301
Indian Bank	5,29,91,003	52,42,821
	3,81,70,70,359	3,26,64,23,640
Add/(Less) : Transfer to FDR Against Legal Education (Sch-7B)	(46,86,86,736)	(90,43,63,245)
Add/(Less): Transfer to FDR Against Security Deposit (Sch-7B)	(2,07,408)	(1,07,44,581)
Total	3,34,81,76,215	2,35,13,15,814

SCHEDULE—9
CURRENT ASSETS

	As At March 31, 2022 R	As At March 31, 2021 R
(A) Interest Accrued on Investments	21,30,23,233	19,20,94,229
Total (A)	21,30,23,233	19,20,94,229
(B) Stock of Books at Cost (As Certified by the Management)	4,80,434	4,80,434
Total (B)	4,80,434	4,80,434
(C) Cash & Bank Balances		
Cash Balances	1,83,704	3,83,493
Bank Balances		
Canara Bank 31050	4,04,28,765	1,25,98,920
UCO Bank 132	7,93,552	4,54,609
Canara Bank 31065 (Legal Education)	18,66,090	18,41,385
Canara Bank 31313(Grants)	0.00	14,739
Canara Bank 31467(AIBE)	54,803	55,098
Canara Bank 06781	8,64,125	94,65,486
Canara Bank 06816	1,11,30,285	1,20,91,995
Syndicate Bank 24171010000239 Building (Grants)	2,47,399	2,47,694
Syndicate Bank 24171010000258 (DLE)	1,28,434	1,28,729
Syndicate Bank 24171010000296	28,23,079	28,23,138
Syndicate Bank 24172010005591	30,02,061	29,16,846
SBI C/A 32718588024 (AIBE)	7,51,488	10,35,594
SBI Collection A/C 32956278428 (AIBE)	9,351	8,36,280
HDFC- Noida S.B. A/C 50100255040680(AIBE)	5,04,383	5,03,705
In S.B. A/C With Scheduled Banks in Different States	19,93,60,440	16,24,05,164
Total (C)	26,21,47,959	20,78,02,874
(D) Amount Receivable		
From Staff	21,739	21,739
From State Bar Councils	81,314	81,314
Sundry Debtors- BCIT	56,50,307	56,50,307
Sundry Debtors- BCIT Pearl First	1,58,50,000	0.00
Advance Pension Fund Deposited	37,73,101	0.00
Total (D)	2,53,76,461	57,53,360
Grand Total (A)+(B)+(C)+(D)	50,10,28,087	40,61,30,898

SCHEDULE—10
LOANS & ADVANCES

Loan To Staff (Housing, Marriage, Education & Others)	90,26,641	1,00,79,885
Advances Recoverable	6,84,45,840	1,17,15,390
Prepaid Expenses	6,000	25,000
Security Deposits For Electricity & Others	12,30,417	12,30,417
Advance Rent- JJK Trust	3,60,836	3,60,836
Amount Recoverable- JJK Trust	69,086	69,086
TDS Recoverable-Income Tax Department	1,70,77,931	1,03,03,643
Advance for demand (FY 2015-16) - Pre deposit Incon	50,26,400	50,26,400
Total	10,12,43,151	3,88,10,657

SCHEDULE—11
ENROLMENT AND OTHER FEES

	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
	R	R
(A) Fees From Advocates		
Enrolment Fees	4,73,34,944	2,79,61,884
Membership Transfer Fees	20,85,352	11,09,575
Resumption of Practice Fees	2,52,800	1,57,800
Total (A)	4,96,73,096	2,92,29,259
(B) Other Fees		
Disciplinary Proceeding Fees	2,39,390	1,03,000
Examination Revision Fees	1,98,910	89,900
Application Fees For Legal Education Forms	4,63,93,431	3,34,30,000
Legal Education Regularisation Fees From Law Colleges	1,09,00,000	1,32,50,000
Total (B)	5,77,31,731	4,68,72,900
Grand Total (A)+(B)	10,74,04,827	7,61,02,159

SCHEDULE—12
EXAMINATION FEES

All India Bar Examination Fees-XVI	20,73,38,225	0.00
All India Bar Examination Fees-XV	0.00	43,34,31,683
Rechecking Fees	1,400	0.00
Foreign Examination Test Fees	34,30,001	48,85,053
Total	21,07,69,626	43,83,16,736

SCHEDULE—13
INTEREST

Interest on Fixed Deposits	19,50,41,771	19,12,84,883
Interest on Savings Bank A/c	24,06,239	10,75,207
Interest on Savings Bank (Enrollment)	44,49,856	41,53,841
Interest on Loans & Advances (Staff)	6,04,753	7,00,615
Interest on Income Tax Refund	2,06,701	0.00
Total	20,27,09,321	19,72,14,547

SCHEDULE—14
OTHER INCOME

Other Miscellaneous Income	6,88,352	14,11,634
Total	6,88,352	14,11,634

SCHEDULE—15
EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

	As At March 31, 2022	As At March 31, 2021
	R	R
Salaries Expenses	3,66,03,466	3,80,34,429
Council Contribution to Pension Fund A/C	1,16,63,826	48,60,178
Council Contribution to Gratuity Fund A/C	26,39,722	11,38,631
Leave Encashment	23,03,204	10,90,203
Medical Allowance	22,84,266	18,26,278
Mediclaime Insurance	11,81,333	18,66,693
Council Contribution to Provident Fund A/C	8,10,517	10,94,094
Assistant Allowance	3,67,960	0.00
Conveyance Allowance	1,48,360	4,18,984
Leave Travel Concession	1,00,871	0.00
Total	5,81,03,525	5,03,29,490

SCHEDULE—16
ESTABLISHMENT & OTHER EXPENSES

	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
	R	R
Promotion of Legal Expenses	19,00,00,000	11,00,04,500
Legal & Professional expenses	50,54,874	26,21,020
Miscellaneous Expenses	41,26,209	42,93,217
General Repairs & Maintenance	40,21,547	23,64,504
Water & Electricity	30,43,269	27,49,706
Printing & Stationery	17,49,206	65,23,621
Postage, Telegram & Telephone	14,30,735	5,51,918
Bank Charges	10,37,390	13,54,501
Conveyance	10,09,115	5,39,394
Security Charges	4,46,040	4,46,040
Repair & Maintenance	4,37,702	2,49,063
Auditors Remuneration	3,24,500	3,49,500
Insurance Premium	89,580	1,15,276
Periodical & Journal	12,834	5,763
Advertisement Expenses	0.00	5,71,000
Rates & Taxes	0.00	2,05,334
Total	21,27,83,000	13,29,44,357

SCHEDULE—17

EXPENSES ON COUNCIL'S ACTIVITIES AND MEETINGS

	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
	R	R
(A) Travelling & Meeting Expenditure		
Travelling - Council	3,50,51,111	2,42,30,338
Travelling - Disciplinary Committee Meeting	35,04,789	8,70,128
Travelling - Inspection	61,96,747	42,66,189
Travelling - Legal Education Meeting	22,93,438	17,74,430
Meeting Expenses	88,39,407	30,13,219
Total (A)	5,58,85,491	3,41,54,304
(B) Other Expenses		
Contribution/ Financial Assistance to State Bar Councils	0.00	1,22,500
Conference, Seminar & Workshop Expenses	6,31,590	21,75,273
Felicitation Expenses	24,23,725	0.00
Subscription to IBA/IIC	91,450	1,56,711
Total (B)	31,46,765	24,54,484
Grand Total (A+B)	5,90,32,256	3,66,08,788

SCHEDULE—18

EXAMINATION EXPENSES

All India Bar Examination XV	3,68,85,630	6,47,21,700
All India Bar Examination XIV	0.00	52,48,730
All India Bar Examination XIII	0.00	7,44,640
All India Bar Examination XII	0.00	99,800
All India Bar Examination XI	0.00	10,500
Share of Expenses to State Bar Councils	0.00	7,17,66,600
Foreign Examination Expenses	9,500	20,200
Total	3,68,95,130	14,26,12,170

SCHEDULE—19

ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS

[THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022]

GENERAL

The Bar Council of India ("the Council") is a Statutory Body created under the Advocates Act, 1961(25 of 1961) by the Parliament of India. Bar Council of India having its object the control, supervision, regulation and encouragement of profession of law and regulation of Legal Education in India as notified by the Central Government of India and its income is utilized for, as per Section 7 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961).

The Bar Council of India is registered under Section 12AA of the Income Tax Act, 1961.

(A) ACCOUNTING POLICIES**1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

The Financial Statements have been drawn up on historical cost convention and have been prepared in accordance with applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on accrual basis unless otherwise stated.

2. REVENUE RECOGNITION

Income & expenditure are recognised on cash basis except the following:-

- (a) The fee received for registration for Web Portal will be recognised once the Web Portal would become operational.
- (b) Present benefit obligation and/or interest component pertaining to special funds *i.e.*, Pension Fund, Provident Fund and Gratuity Fund has been credited to the respective Fund Account on accrual basis.
- (c) **Income from Investment:** Interest on Fixed Deposit is recognised on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

3. GRANT-IN-AID

- (a) Government grants is recognised on a systematic basis in the Income & Expenditure Account over the period necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate. Unutilised amount, if any, is treated as liability as at the year end.
- (b) Government grants related to Specific Fixed Assets are treated as deferred income which is recognised in the account on a systematic and rational basis over the useful life of the assets.

4. FUND

The word “fund” has been used to denote the intention to keep the balances invested ultimately.

(i) Corpus Fund

Corpus Fund represents donations received from Law Colleges and Others and annual surplus/deficit of the Bar Council of India upto 31/03/1999.

(ii) Welfare Fund

Welfare Fund represents contribution received from Advocates in accordance with the Bar Council of India Rules and the same is utilised for Financial Assistance to Advocates.

5. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation. For this purpose, cost of acquisition is inclusive of inward freight, duties, taxes and incidental expenses & direct expenses related to acquisition/construction of such assets.

6. DEPRECIATION

Depreciation on Fixed Assets is provided on Written Down Value method at the rates prescribed under the Income Tax Rules.

7. INVESTMENTS

Investments have been classified as ‘long term investments’ and are carried at cost since all the investments have been held in Fixed Deposits with Scheduled Banks.

8. RETIREMENT BENEFITS**(i) Pension Fund**

Pension-Cum-Family Pension Rules of the Employees of the Bar Council of India, *w.e.f.* 1-4-2002 has been made applicable to the Employees of the Bar Council of India. Accordingly, the “BCI-Contributory Provident Fund” has been discontinued and in its place Pension Fund has been introduced. The contribution made earlier by Bar Council of India to Contributory Provident Fund along with accrued interest has been transferred to the Pension Fund.

Pension fund contribution is made on monthly basis at the rate of 12% of Basic Salary with an additional amount of R 10,000 P.M. as per Council decision. However, the accrued liabilities as per actuarial valuation under PVC method is determined as per the provision of notified Accounting Standard (Revised)-15 on Employee Benefit the differential provision /reversal is made at the year end.

(ii) Gratuity

The Bar Council of India has maintained a special fund called “Gratuity Fund”. Contribution to this fund is made based on the actuarial valuation as per AS-15 of the ICAI. The fund is administered by the Trustees appointed by the Council.

(iii) G.P.F.

General Provident Fund Account of the Employees of the Bar Council of India represents the amount of subscription of employees at the applicable rate of the pay together with Voluntary Contribution and accrued interest thereon.

(iv) Leave Encashment

The provision for unavailed leave is made on accrual basis by considering the Basic Salary plus Dearness Allowances for 30 days in a year subject to a maximum ceiling of 300 days as per BCI Rules/Central Government Rules.

Further, provision for this fund is made on the basis of actuarial valuation as per AS-15 of the ICAI.

(B) NOTES TO ACCOUNTS

The details of contingent liabilities not acknowledged as debts.

1. Contingent Liabilities:

S. No.	Particulars	Financial Year	Section Code	Date on which demand raised	Demand Outstanding (Previous Year) (R)	Demand Outstanding (Preceding Year) (R)
(a)	Income Tax Authority	2015-16	143(3)	30.12.2018	4,16,41,108.00	4,57,52,460.00

The case is selected for scrutiny under CASS by the Income Tax Department for the FY 2015-16 and the Assessment order of the same was passed on dated 30.12.2018. As per the order No. ITBA/AST/S/143(3)/2018-19/1014662612(1) under Section 143(3) of the Income Tax Act, 1961, a demand of R 4,57,52,460 was raised. The Council has filed appeal against the order to the Commissioner of the Income Tax (Appeals) and Writ Petition against the same is also filed with High Court of Delhi.

2. Provident Fund is recognised under Rule 3(1) of the Part -A of the IVth Schedule of the Income Tax Act, 1961 vide letter No.JP-1(6)/63/3332 dated (order No.1 of 1965-66).
3. Balance of Inspection Fees received in Advance from Law Colleges /Institution for R 65,29,05,000 and Security Deposit from affiliated Institutions of R 32,16,00,000 are represented by Fixed Deposits with Banks of the same amount as stated at Schedule No. 7B of the Balance Sheet.
4. Previous year figures have been regrouped/reclassified wherever considered necessary.

Schedule 1 to 19 form an Integral Part of the accounts.

As Per our report of even date annexed with Balance Sheet

For and on behalf of Bar Council of India

For G. K. Kedia & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 013016N

Sd-
Vice Chairman

Sd-
Secretary

Sd-
Senior OS
Accounts Department

Sd-
Partner
M. No. 544129

CASH FLOW STATEMENT*(For The Year Ended March 31, 2022)*

PARTICULARS	As At	As At
	March 31, 2022	March 31, 2021
A Cash Flow from Operating Activities	R	R
Surplus as per Income & Expenditure Account	75,70,43,777	84,49,32,720
Cash flow from operation after adjustment for non cash/operating items:		
Depreciation (net amount charged to Asset Fund)	29,86,448	24,62,645
Interest Income on Fixed Deposits	(19,50,41,771)	(16,81,02,757)
Interest on Saving Bank (Enrolment) & Others	(68,56,095)	(52,68,342)
Interest on Loans & Advances given to staff	(6,04,753)	(7,00,615)
Operating Surplus before Working Capital & Funds Changes	55,75,27,605	67,33,23,652
Increase/(Decrease) in Current Assets & Current liabilities and Earmarked Fund Balances		
(Increase)/ Decrease in Loans & Advances	(6,24,32,494)	16,22,593
(Increase)/ Decrease in Receivables	(5,98,755)	(1,42,98,140)
(Increase)/ Decrease in Interest Accrued	(1,96,03,967)	(2,10,37,765)
(Increase)/ Decrease in Current Assets	(9,11,24,088)	0.00
Increase/ (Decrease) in Current Liabilities & Provisions	(3,81,97,269)	3,77,23,838
Net Cash from/used in (-) Operating Activities	34,55,71,032	67,73,34,178
B Cash Flow from Investing Activities		
Interest Income on Fixed Deposits	19,50,41,771	16,81,02,757
Interest on Saving Bank (Enrolment) & Others	68,56,095	52,68,342
Interest on Loans & Advances given to staff	6,04,753	7,00,615
Sale of Tangible Assets	0.00	10,000
Purchase of Tangible Assets	51,85,926	(13,48,910)
Investments:		
i) Investment Against Earmarked Fund:		
Increase in Welfare Fund Investments	(3,78,17,096)	0.00
Increase in Provident Fund Investments	(43,28,492)	(3,96,281)
Increase in Gratuity Fund Investments	(15,70,341)	(31,24,960)
Increase in Pension Fund Investments	(2,55,86,774)	(60,00,000)
Education	(1,54,86,414)	0.00
Increase in Investments For Security Deposit From Law Colleges (Affiliation)	(4,61,37,173)	0.00
Encashment of Investment		
AIBE and BCI	(15,37,78,938)	(31,83,18,598)
ii) Other Investments	(28,35,11,967)	(49,89,54,610)
Net Cash from/used in (-) Investing Activities	(36,05,28,651)	(65,40,61,644)
C Cash Flow from Financing Activities		
Increase/(Decrease) in Welfare Fund(Net)	3,78,17,096	0.00

Increase/(Decrease) in Provident Fund (Net)	43,28,492	3,96,281
Increase/(Decrease) in Gratuity Fund (Net)	15,70,341	31,24,960
Increase/(Decrease) in Pension Fund (Net)	2,55,86,774	60,00,000
Net Cash generated from/used(-) in Financing Activities	6,93,02,703	95,21,240
Net increase/decrease(-) in cash and cash equivalents (A+B+C)	5,43,45,085	3,27,93,774
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year (Opening Balance)	20,78,02,874	17,50,09,100
Cash and Cash Equivalents at the end of the year (Closing Balance)	26,21,47,959	20,78,02,874
Components of Cash and Cash equivalents: Cash in hand	1,83,704	3,83,493
Balances with scheduled banks in Current Account and Savings Account	26,19,64,255	20,74,19,382
Total	26,21,47,959	20,78,02,874

The above cash flow statement has been prepared under Indirect Method as set out in AS-3 issued by the ICAI

SCHEDULES 1 TO 19 FORM AN INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS

As per our report of even date annexed with Balance Sheet	
For and on behalf of the Bar Council of India	For G. K. Kedia & Co.
	Chartered Accountants
	Firm Reg. No. 013016N
Sd- Vice Chairman	Sd- Secretary
	Sd- Senior OS Accounts Department
	Sd- Partner M. No. 544129

SRIMANTO SEN, Secy. Bar Council of India

[ADVT.-III/4/Exty./125/2023-24]